

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जुलाई २०२१ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- (i) कर्मचारी चयन आयोग ने 14.07.2021 को कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2020 के पेपर- II का परिणाम घोषित किया।

साथ ही, आयोग ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण नोटिस प्रकाशित किए:

- क) जुलाई-अगस्त, 2021 के दौरान निम्नलिखित तीन परीक्षाओं के पुनर्निर्धारण (रीशिड्यूलिंग) के संबंध में दिनांक 02.07.2021 का नोटिस:
- 1) दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर और सीआईएसएफ में एसआई परीक्षा (पेपर- II), 2019
 - 2) संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तर की परीक्षा (टियर- I), 2020
 - 3) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर- I), 2020
- ख) 15.09.2021 और 16.09.2021 को संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई)-2019 के पात्र उम्मीदवारों की कौशल परीक्षा आयोजित करने के संबंध में दिनांक 16.07.2021 का नोटिस।
- ग) गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा तैयार की गई भर्ती योजना के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), एनआईए, एसएसएफ में कांस्टेबल (जीडी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) परीक्षा, 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में दिनांक 17.07.2021 का नोटिस।
- घ) दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ में उप-निरीक्षक और सीआईएसएफ में सहायक उप-निरीक्षक परीक्षा [शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण (पीईटी) / शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी)], 2019
- (ii) इंटरनेट के माध्यम से आईजीओटी कर्मयोगी एप्लिकेशन तक पहुंचने के लिए **igotkarmayogi.gov.in** नामक डोमेन को अंतिम रूप दिया गया है।
- (iii) केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, मंत्रालयों, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, विश्व बैंक के 44 और पाठ्यक्रम आईजीओटी-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म में शामिल किए गए हैं। अब, आईजीओटी-कर्मयोगी पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों की कुल संख्या 100 है।
- (iv) श्री प्रवीण परदेशी ने दिनांक 01.07.2021 को क्षमता निर्माण आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- (v) माह के दौरान सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) में 01 (एक) संगठन विशिष्ट कार्यक्रम, पांच (05) कैलेंडर प्रशिक्षण कार्यक्रम और चार (04) सीएसएस/सीएसएसएस-सीटीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित 10 (दस) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की कुल संख्या 396 थी।
- (vi) भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा और भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा की संवर्ग समीक्षा पर संवर्ग समीक्षा समिति की सिफारिशों पर राज्य मंत्री (पीपी) और वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। रेल मंत्री को अब कैडर समीक्षा को अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट हेतु टिप्पणी प्रस्तुत करनी है।

- (vii) पीईएसबी, डीओपीटी ने 06 (छह) पदों [निदेशक के 05 (पांच) पदों तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के 01 (एक) पद] के लिए विज्ञापन जारी किए ।
- (viii) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल्स के मेडिकल संवर्गों के संवर्ग समीक्षा प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दिनांक 30.07.2021 को कैडर समीक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई ।
- (ix) राजपत्र अधिसूचना संख्या 39018/01/2016-स्था.(ख) दिनांक 28.07.2021 के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट), तृतीय संशोधन, विनियम, 2021 अधिसूचित किया गया ।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण भी जारी किए गए:-

- (i) दिनांक 01.07.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-27012/2/2017-स्था (एएल) के माध्यम से, कोविड-19 महामारी लॉकडाउन अवधि के दौरान बाल शिक्षण भत्ता (सीईए) पर, स्पष्टीकरण जारी किया गया ।
- (ii) दिनांक 13.07.07 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2015-स्था.(घ) के माध्यम से, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी) स्कीम की प्रभावी तिथि को पूर्वस्थगित किए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों/केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में लंबित या उनके द्वारा तय किए गए मामलों पर, निर्देश जारी किए गए ।